



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)
PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 456] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 28, 1983/अग्रहायण 7, 1905
No. 456] NEW DELHI, MONDAY, NOV. 28, 1983/AGRAHAYANA 7, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 1983

सां०का०नि० 863(अ).—केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि व्यक्तियों के कुछ वर्गों को, आयुध (सशोधन) अधिनियम, 1983 (1983 का 25) द्वारा यथा सशोधित आयुध अधिनियम, 1959 (1959 का 54) के कुछ उपबन्धों के प्रवर्तन से, छूट देना लोकहित में आवश्यक और समीचीन है,

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उस अधिनियम की धारा 41 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नई दिल्ली में नवम्बर-दिसम्बर, 1983 के दौरान होने वाली

आगामी एशियाई निशानेबाजी चैम्पियनशिप प्रतियोगिता में भाग लेने वाली भारतीय टीम के सभी सदस्यों को, आयुध अधिनियम, 1959 (1959 का 54) की धारा 3 की उपधारा (2) के उपबन्धों से इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो माह की अवधि के लिए छूट देती है।

[सं० 5-11026/54/83-जी०पी०ए०-5]

एच० वी० गोस्वामी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th November, 1983

G. S. R. 863(E).—Whereas the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to exempt certain classes of person from the operation of certain provisions of the Arms Act, 1959 (54 of 1959) as amended by the Arms (Amendment) Act, 1983 (25 of 1983);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 41 of that Act, the Central Government hereby exempts all the members of Indian Team participating in the forthcoming Asian Shooting Championship Competition at New Delhi to be held during November-December, 1983; from the provision of sub-section (2) of section 3 of the Arms Act, 1959 (54 of 1959) for a period of two months from the date of publication of this Notification in the Official Gazette.

[No. V-11026/54/83-GPA. V]

H. V. GOSWAMI, Jt. Secy.